

SarkariExam.Com

अपडेट सबसे पहले

अब घंटो पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र कुछ मिनटों में ही लीजिये Current Affairs की जानकारी – और रहिए अपडेट ॥ अब से हर रोज RRB Railway ASM/ NTPC – 2, RPF Exam के लिए के Current Affairs के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपडेट हम आपको देंगे, जो करेंगे मदद आपके सभी Exams में और आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच ॥

Special 20 Questions for Current Affairs

08/02/2020

Q1. इमामी ग्रुप ने अपना सीमेंट कारोबार कितने करोड़ रुपए में नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने की घोषणा की है?

क. 2,500 करोड़ रुपए

ख. 3,500 करोड़ रुपए

ग. 4,500 करोड़ रुपए

घ. 5,500 करोड़ रुपए

इमामी ग्रुप ने हाल ही में अपना सीमेंट कारोबार 5,500 करोड़ रुपए में नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने की घोषणा की है. इमामी ग्रुप के प्रमोटर कर्ज घटाने के लिए कंपनी बेच रहे हैं.

Q2. अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में किस स्मार्टफोन कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया है?

क. शोमी

ख. विवो

ग. ओप्पो

घ. वनप्लस

काउंटरपॉइंट रिसर्च की मार्केट मॉनिटर सर्विस 2019 के मुताबिक अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस ने सबको पीछे छोड़ दिया है. वनप्लस ने भारत में 33% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है.

Q3. हाल ही में जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कितनी हो गयी है?

क. 636

ख. 736

ग. 836

घ. 936

हाल ही में जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 636 हो गयी है. वही इस विषाणु से संक्रमित होने से अब तक लगभग 30 हजार से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है.

Q4. हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?

क. जापान

ख. भारत

ग. ऑस्ट्रेलिया

घ. नेपाल

नेपाल ने हाल ही में सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना था. इस फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन आरबी डायमंड्स और कासा स्टाइल द्वारा किया गया.

Q5. अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत गिरकर कौन से स्थान पर पहुच गया है?

क. 40वें स्थान

ख. 50वें स्थान

ग. 60वें स्थान

घ. 80वें स्थान

अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत गिरकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है. जबकि पिछले साल 50 देशों की इस सूची में भारत 36वें स्थान पर था. भारत 2018 में 44वें स्थान पर था.

Q6. कुष्ठरोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए डॉ. एन.एस. धर्मशक्तु को किसने सम्मानित किया है?

क. राजनाथ सिंह

ख. नरेंद्र मोदी

ग. रामनाथ कोविंद

घ. इनमें से कोई नहीं

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठरोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए डॉ. एन.एस. धर्मशक्तु को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किए हैं.

Q7. कनाडा देश में भारत के किस व्यक्ति को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है?

क. संजय वर्मा

ख. सुमेश त्यागी

ग. अजय बिसारिया

घ. संजय माथुर

कनाडा देश में भारत के अजय बिसारिया को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं साथ ही अजय बिसारिया पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं।

Q8. 8 फ़रवरी को वर्ष 2007 में किस देश के नरेश पहली बार भारतीय यात्रा पर आये थे?

क. नेपाल

ख. जापान

ग. भूटान

घ. बांग्लादेश

8 फ़रवरी को वर्ष 2007 में भूटान नरेश पहली बार भारतीय यात्रा पर आये थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते हुए थे।

Q9. राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किस देश को हाल ही में शामिल कर लिया गया है?

क. ऑस्ट्रेलिया

ख. जापान

ग. मालदीव

घ. चीन

राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से मालदीव को हाल ही में शामिल कर लिया गया है. करीब 3 वर्ष पहले पहले मानवाधिकार के मसले पर मालदीव राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था.

Q10. 8 फ़रवरी 1909 को फ़्रांस और किस यूरोपीय देश ने मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किये थे?

क. जापान

ख. चीन

ग. ऑस्ट्रेलिया

घ. जर्मनी

8 फ़रवरी 1909 को फ़्रांस और जर्मनी यूरोपीय देश ने मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किये थे.

Q11. मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तराईन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी?

क. 1191

ख. 1150

ग. 1240

घ. 1358

Q12. सिकन्दर के समय मगध पर किसका शासन था?

क. धननन्द

ख. कुतुब्दीन

ग. पृथ्वीराज

घ. कनिष्क

Q13. इनमे से कौन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था?

क. शाहजहाँ

ख. कुतुबुद्दीन ऐबक

ग. अल्लुदीन खिलजी

घ. अकबर

Q14. 'यह व्याख्या किसने की थी "वेदों में सम्पूर्ण सच्चाई निहित है"?

क. स्वामी विवेकानंद

ख. स्वामी दयानंद

ग. दीनदयाल उपध्याय

घ. भीमराव अम्बेडकर

Q15. अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे?

क. पृथ्वीराज

ख. अकबर

ग. शाहजहाँ

घ. कुतुबुद्दीन ऐबक

Q16. निम्न में से क्या मौर्यकाल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केन्द्र था?

क. स्कूल

ख. कॉलेज

ग. तक्षशिला

घ. इनमें से कोई नहीं

Q17. भारत में सती प्रथा किस वर्ष खत्म कर दी गयी थी.

क. 1870

ख. 1829

ग. 1795

घ. 1896

Q18. सिन्धु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है?

क. हरियाणा

ख. केरल

ग. राजस्थान

घ. कोलकाता

Q19. स्वामी विवेकानन्द का मूल नाम क्या था?

क. विवेक दत्त

ख. नरेन्द्रनाथ दत्त

ग. नरेन्द्रनाथ स्वामी

घ. विवेकानन्द रामजी

Q20. बिहार में कुँवर सिंह ने किस ई. में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था?

क. 1947 ई.

ख. 1921 ई.

ग. 1857 ई.

घ. 1950 ई.